

(i) Printed Pages : 4 Roll No. ....

(ii) Questions : 9 Sub. Code : 

8	0	4	4
1	1	0	2

Exam. Code : 

1	1	0	2
---	---	---	---

B.Ed. (General) 2<sup>nd</sup> Semester  
(2053)

**CURRICULUM AND UNDERSTANDING THE  
DISCIPLINES (In all Mediums)**

(Same for USOL Candidates of 2<sup>nd</sup> Semester)

Paper : F-2.4

Time Allowed : Three Hours] [Maximum Marks : 40

Note :— Attempt FIVE questions in all, selecting ONE each from Units-I to IV. Unit-V is compulsory. All questions carry equal marks.

**UNIT—I**

- I. Discuss the concept and importance of Curriculum.
- II. Compare core curriculum and hidden curriculum.

**UNIT—II**

- III. Discuss the characteristics of subject-centered curriculum.
- IV. How is the curriculum visualized in NCF (2005) ?

**UNIT—III**

- V. Explain the meaning and types of discipline.
- VI. How does inter-disciplinary approach to education affect school subjects ?

## **UNIT—IV**

VII. Discuss the nature and importance of Science.

VIII. Explain changes in school subjects in terms of social context.

## **UNIT—V**

IX. Write short notes on the following :

- Principles of curriculum construction.
- Role of teacher in Curriculum Development.
- Core idea of developing disciplines.
- Correlation among Science and Mathematics.

### **(हिन्दी माध्यम)**

**नोट :—** कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यूनिट-I से IV तक प्रत्येक में से एक प्रश्न का उत्तर लिखें। यूनिट-V अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

### **यूनिट-I**

- पाठ्यचर्चा की अवधारणा और महत्व पर चर्चा करें।
- मुख्य पाठ्यक्रम और छिपे हुए पाठ्यक्रम की तुलना करें।

### **यूनिट-II**

- विषय-केन्द्रित पाठ्यचर्चा की विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
- NCF (2005) में पाठ्यचर्चा की कल्पना कैसे की गई है ?

### **यूनिट-III**

- विषयों का अर्थ और प्रकार समझाइए।
- शिक्षा के संबंध में अंतर-अनुशासनात्मक ट्रॉटिकोण स्कूल के विषयों को कैसे प्रभावित करता है ?

## **यूनिट-IV**

VII. विज्ञान की प्रकृति और महत्व पर चर्चा करें।

VIII. सामाजिक सदर्भ के सम्बन्ध में स्कूल के विषयों में परिवर्तन की व्याख्या करें।

## **यूनिट-V**

IX. निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए।

- पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत।
- पाठ्यचर्चा विकास में शिक्षक की भूमिका।
- विकासशील विषयों के मुख्य आदर्श।
- विज्ञान और गणित के बीच सहसंबंध।

### **(ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ)**

**ਨੋਟ :—** ਯੂਨਿਟ I ਤੋਂ IV ਤਕ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਣ੍ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਯੂਨਿਟ-V ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਕ ਬਚਾਬਦ ਹਨ।

### **ਯੂਨਿਟ-I**

- ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
- ਮੁੱਖ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਲੁਕਾਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤੁਲਾ ਕਰੋ।

### **ਯੂਨਿਟ-II**

- ਵਿਸਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
- NCF (2005) ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

### **ਯੂਨਿਟ-III**

- V. ਅਨੁਸਾਸਨ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
- VI. ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

### **ਯੂਨਿਟ-IV**

- VII. ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
- VIII. ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।

### **ਯੂਨਿਟ-V**

- IX. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸੱਖੇਪ ਨਟ ਲਿਖੋ :
- (i) ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ।
  - (ii) ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।
  - (iii) ਅਨੁਸਾਸਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ।
  - (iv) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ।